



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 1977/चैत्र 23, 1899

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 1977/CHAITRA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 13th April 1977

G.S.R. 181(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Inter-Zonal Wheat (Movement Control) Order, 1973, published with the Order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food), No 187(E), dated the 31st March, 1973:

Provided that such rescission shall not affect—

- the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder; or
- any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order, or
- any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order, or
- any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[No 3(Genl) (5)/76-D&R (I)-52]

L. C. GUPTA, Joint Secy

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 181(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश स० 187 (ई), तारीख 31 मार्च, 1973 के साथ प्रकाशित अन्तः क्षेत्रीय गेहूँ (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 को विखंडित करती है

परन्तु ऐसे विखंडन का —

- (क) उक्त आदेश के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात ; या
- (ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या
- (ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड ; या
- (घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ;

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही सन्स्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश विखंडित नहीं किया गया था ।

[स० 3 (जनरल) (5)/76-डी० एण्ड आर० (I)-52]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977